

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 1238 / 12-2

बागेश्वर

दिनांक : 26 / 11 / 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - आनलाईन प्रस्ताव देवलधार मैथान लेटी गिरेछीना मोटर-मार्ग (प्रस्ताव संख्या 10903/2015)।
सन्दर्भ- ऑन लाईन आप्पति दिनांक 14.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि देवलधार मैथान लेटी गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण इस कार्यालय से कर सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स0 1	Total period for wich area to be diverted is not correctly filled in online Part I.	Total period I में प्रस्तावित वन भूमि की अवश्यकता संकलित कर दिया गया है।
बिन्दु स0 2	In the village wise break up the name o the village mentioned Palari RF for which the village level committee proceeding is not provided with the FRA certificate. It is also not clear that when only four village are connected with this road then why the VLC proceeding provided for 6 villages with the FRA certificate. The necessary correction to be made accordingly.	मार्ग संरक्षण में चार ग्राम सभाएँ एवं दो टोक की भूमि आति है तदनुसार ही ग्राम स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है जो सही है संरक्षण में पालड़ी RF की भूमि प्रभावित होती है। उसमें सम्बन्धित ग्राम स्तरीय समिति की बैठक ग्राम सभा पलड़ी बगड़ RF प्रपत्रों के साथ संलग्न है।
बिन्दु स0 3	As per Decision Support System (DSS) Analysis the area of CA shown in KML file of CA in Part II shows the extent of area as 0.15 ha instead of 13.995 ha area proposed for C.A May upload KML file again showing the correct extent of area proposed for CA.	Decision Support System (DSS) Analysis कव अनुसार CA का KML तैयार कर दिया है।
बिन्दु स0 4	The State Got has provided/uploaded the scanned copy for GIS software generated geo referenced digital map	GIS Support generated geo referenced digital map geo coordinates 200 to 300 m में लगा दिये गये है।

	showing few geo-coordinates which is not acceptable.the state govt may provide/upload the correct and clear map showing geo- coordrdinates at 200to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part I	
बिन्दु स0 5	The State Govt may provided/uploaded GIS software generated geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Google earth map will not accepted for the purpose.	GIS Software generated geo referenced digital map में CA all corner points in shape (polygon/closed area) तैयार कर दिया गया है।
बिन्दु स0 6	In The Cost Benefit analysis upload in the Part I in both Performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms. Cost over Benefit ratio may also worked out.	Cost Benefit analysis Part I में संकलित कर दिया है।
बिन्दु स0 7	Copy of note containing justification locating the project in forest land is not uploaded in Part I	Justification Part I के प्रपत्र 1.5 में संकलित कर दिया है
बिन्दु स0 8	Working plan prescription is not provided for reserved forest area in online Part II.	Working plan prescription has been provided in part II online.(a copy of Part II enclosed herewith)
बिन्दु स0 9	Detail of wildlife is not provided in online Part II.	Detail of wildlife presence has been provided in the online form A part II. (a copy of Part II enclosed herewith)
बिन्दु स0 10	The correct CA scheme for area 13.995 ha is not uploaded in online Part II 13(vii)	Correct CA scheme for area 13.995 ha has been provide in form A part II.

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यावाही करने की कृपा करे ।
संलग्न- यथोपरि

भवदीय



(एम0बी0सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी


बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर



डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में देवलधार-मैथान-लेटी-गिरेछीना
मोटर मार्ग का निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक क्षतिपूरक वृक्षारोपण
(स्थल- ग्राम दुलम, क्षेत्रफल- 13.995 है०)



0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000






Legend

-  Proposed Plantation
-  Reserve Forest
-  Reserve Forest Boundary



 सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 बागेश्वर बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में देवलधार-मैथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण हेतु



Legend



- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में देवलधार-मैथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000



Legend


- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

अभिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

जीयोरफेरन्स मैप - जनपद बागेश्वर में देवलधार-मैथान-लेटी-गिरिछीना मोटर
मार्ग का निर्माण हेतु (लम्बाई - 10.650 किमी०)



0 0.25 0.50 1.0
Km
Scale - 1:20,000



S.no.	Latitude	Longitude	S.no.	Latitude	Longitude
1	79° 42' 41.772" E	29° 48' 13.094" N	29	79° 44' 27.126" E	29° 48' 6.623" N
2	79° 42' 42.127" E	29° 48' 10.459" N	30	79° 44' 25.745" E	29° 48' 5.454" N
3	79° 42' 48.080" E	29° 48' 10.594" N	31	79° 44' 20.621" E	29° 48' 5.291" N
4	79° 42' 50.993" E	29° 48' 10.699" N	32	79° 44' 14.983" E	29° 48' 5.576" N
5	79° 42' 45.323" E	29° 48' 4.256" N	33	79° 44' 9.675" E	29° 48' 4.002" N
6	79° 42' 49.706" E	29° 48' 2.465" N	34	79° 44' 3.734" E	29° 48' 3.615" N
7	79° 42' 53.896" E	29° 48' 0.551" N	35	79° 43' 58.422" E	29° 48' 2.472" N
8	79° 42' 58.177" E	29° 48' 2.518" N	36	79° 43' 53.560" E	29° 47' 59.178" N
9	79° 42' 59.874" E	29° 48' 8.314" N	37	79° 43' 50.042" E	29° 47' 54.384" N
10	79° 43' 4.709" E	29° 48' 11.288" N	38	79° 43' 46.703" E	29° 47' 45.820" N
11	79° 43' 10.099" E	29° 48' 13.969" N	39	79° 43' 45.127" E	29° 47' 45.326" N
12	79° 43' 14.646" E	29° 48' 17.965" N	40	79° 43' 41.452" E	29° 47' 41.695" N
13	79° 43' 20.192" E	29° 48' 20.291" N	41	79° 43' 40.736" E	29° 47' 37.328" N
14	79° 43' 23.967" E	29° 48' 15.927" N	42	79° 43' 44.598" E	29° 47' 32.693" N
15	79° 43' 29.346" E	29° 48' 18.639" N	43	79° 43' 52.403" E	29° 47' 29.473" N
16	79° 43' 34.762" E	29° 48' 21.530" N	44	79° 43' 51.368" E	29° 47' 26.463" N
17	79° 43' 40.768" E	29° 48' 22.086" N	45	79° 43' 46.818" E	29° 47' 22.611" N
18	79° 43' 45.664" E	29° 48' 25.241" N	46	79° 43' 42.011" E	29° 47' 19.556" N
19	79° 43' 50.123" E	29° 48' 29.187" N	47	79° 43' 43.824" E	29° 47' 14.200" N
20	79° 43' 54.568" E	29° 48' 25.771" N	48	79° 43' 48.139" E	29° 47' 10.913" N
21	79° 43' 58.242" E	29° 48' 21.576" N	49	79° 43' 52.018" E	29° 47' 6.921" N
22	79° 44' 1.510" E	29° 48' 21.156" N	50	79° 43' 54.778" E	29° 47' 2.800" N
23	79° 44' 6.208" E	29° 48' 23.717" N	51	79° 44' 0.014" E	29° 47' 3.433" N
24	79° 44' 11.314" E	29° 48' 21.888" N	52	79° 44' 4.606" E	29° 47' 4.556" N
25	79° 44' 16.597" E	29° 48' 19.009" N	53	79° 44' 9.761" E	29° 47' 5.939" N
26	79° 44' 22.257" E	29° 48' 19.846" N	54	79° 44' 10.413" E	29° 47' 11.289" N
27	79° 44' 23.864" E	29° 48' 17.815" N	55	79° 44' 13.725" E	29° 47' 12.900" N
28	79° 44' 24.438" E	29° 48' 11.873" N	56	79° 44' 15.661" E	29° 47' 16.605" N
			57	79° 44' 18.560" E	29° 47' 11.667" N

Muck Disposal Point		
S.no.	Longitude	Latitude
A	79° 43' 2.090" E	29° 48' 10.210" N
B	79° 43' 22.600" E	29° 48' 16.960" N
C	79° 43' 49.420" E	29° 48' 28.810" N
D	79° 44' 28.730" E	29° 48' 4.440" N
E	79° 43' 52.790" E	29° 47' 58.430" N
F	79° 43' 42.660" E	29° 47' 34.210" N
G	79° 43' 51.340" E	29° 47' 8.360" N
H	79° 44' 11.370" E	29° 47' 12.660" N

जीयोरफरेन्स मैप - जनपद बागेश्वर में देवलधार-मैथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण (स्थल- ग्राम दुलम, क्षेत्रफल- 13.995 है०)



Legend

- GPS Co ordinates
- CA Land Dulam Civil 13.995 Ha.

प्रादेशिक वन्य जीव संरक्षण विभाग
 अतिरिक्त क्षेत्र
 प्रादेशिक वन्य जीव संरक्षण विभाग
 बागेश्वर

S.NO.	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 55' 29.770" E	30° 0' 20.419" N
2	79° 55' 28.594" E	30° 0' 15.347" N
3	79° 55' 26.540" E	30° 0' 10.581" N
4	79° 55' 24.168" E	30° 0' 6.748" N
5	79° 55' 25.873" E	30° 0' 4.734" N
6	79° 55' 30.545" E	30° 0' 8.863" N
7	79° 55' 36.195" E	30° 0' 9.459" N
8	79° 55' 41.955" E	30° 0' 11.059" N
9	79° 55' 41.776" E	30° 0' 13.909" N
10	79° 55' 35.453" E	30° 0' 14.218" N
11	79° 55' 36.612" E	30° 0' 18.513" N
12	79° 55' 41.142" E	30° 0' 23.433" N
13	79° 55' 40.445" E	30° 0' 24.405" N
14	79° 55' 35.779" E	30° 0' 25.119" N
15	79° 55' 31.011" E	30° 0' 25.914" N

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.00

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : wildlife presence is rare in the forest land proposed for diversion.

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :



(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data


13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i).


Patch Wise Details

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Bageshwar	Dulam	13.995	1		

(ii).

Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 

(iii).

Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A: 


(iv).

Total Financial Outlay for C.A: 21.21


(v).

Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from management point of view?: Yes

(vi).

Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view: 

(vii).

Copy of detailed CA scheme including species to be planted,implementing agency,time schedule,cost structure etc.: 

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0345/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

(i)

State / Union Territory : Uttarakhand

(ii)

District : Bageshwar

(iii)

Forest Division : Bageshwar

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 6.9975

(v)

Category : Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Bageshwar	5.4	Reserved Forest
2	Bageshwar	0.891	Revenue Forest
3	Bageshwar	0.7065	Village Forest

Division 1. : Bageshwar

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Bageshwar	6.9975

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	6.9975	0.3	Eco 5

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir		38	35	24	137
2	Quercus leucotricophora	Baaj		6	10		
3	Angelhardtia Spp.	burans		7	5		
4	Myrica esculenta	Kafal		8	10		
5	Limonia crenulata	Aanyar		7	8		

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

Palari compartment no 3,4,5,7, Chir working circle, quality class II/III, P.B of compart no 4,5,-Last, compart no 3-U.A, compart no 7-IGRIL,

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : the area is not prone to soil erosion.